



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2006/फाल्गुन 26, 1927

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2006/PHALGUNA 26, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2006

सं. 93 (आर ई-2005)/2004—2009

फा. सं. 01/92/180/133/एम 06/पीसी-2.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

- (1) परिशिष्ट 22ग—परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतानों के प्रमाणपत्र के प्ररूप में शर्त (क) के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से माल और उपकरण (टर्नकी परियोजनाओं की एकल जिम्मेवारी) की आपूर्ति और स्थापना की प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के तहत उन एजेंसियों/निधियों, जिनकी बोलियां विदेश में विनिर्मित माल हेतु सुपुर्दगी शुल्क भुगतान (डिलिवर्ड इयूटी पेड) मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित और निमंत्रित की गई हैं।”

- (2) परिशिष्ट 27ग—परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र के प्ररूप में शर्त (क) के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से माल और उपकरण (टर्नकी परियोजनाओं की एकल जिम्मेवारी) की आपूर्ति और स्थापना की प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के तहत उन एजेंसियों/निधियों, जिनकी बोलियां विदेश में विनिर्मित माल हेतु सुपुर्दगी शुल्क भुगतान (डिलिवर्ड इयूटी पेड) मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित और निमंत्रित की गई हैं।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th March, 2006

No. 93 (RE-2005)/2004—2009

F. No. 01/92/180/133/AM06/PC-II.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures Vol. I:

(1) In Appendix 22C—Format of Certificate of payments issued by the project authority, the following shall be added below condition (a) :—

“Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, which the bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for the goods manufactured abroad.”

(2) In Appendix 27C—Format of project authority certificate, the following shall be added below condition (a):—

“Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, which the bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for the goods manufactured abroad.”

This issues in the public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.